



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 497 राँची, गुरुवार,

27 जून, 2019 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2019

संख्या-2/भा0व0से0(स्था0)-10/2017-2076/व0प0,-- उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर के कार्यालय को सुदृढ़ करने एवं इसकी उपयोगिता में वृद्धि करने तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत वन्यप्राणी आश्रयणी तथा गज आरक्षण से संबंधित योजनाओं के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:-

1. दुमका वन्यप्राणी प्रक्षेत्र, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग को गज परियोजना, जमशेदपुर के अंतर्गत स्थानांतरित करते हुए दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र किया जाता है।

इसका मुख्यालय चाण्डिल में होगा।

2. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर में कार्यरत दलमा वन्यप्राणी प्रक्षेत्र को निम्न प्रकार विभक्त करते हुए पुनर्गठित किया जाता है:-

क्र०सं०	प्रक्षेत्र का नाम	मुख्यालय	बीट का नाम
(i)	दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र।	मानगो	मानगो, भादोडीह, नूतनडीह, पटमदा।
(ii)	दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र।	चाण्डिल	दलमा, चकुलिया।

3. दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र तथा दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र से संबंधित बीट, सब-बीट एवं क्षेत्रफल तथा ग्राम पंचायत एवं वन क्षेत्र आदि की विवरणी एनेक्सर-1 के रूप में संलग्न है।
4. चाईबासा वन्यप्राणी प्रक्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची से हटाकर उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर के अधीन किया जाता है।
5. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
6. यह व्यवस्था अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजना बर्मन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
